



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2012/पौष 29, 1933

No. 79]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2012/PAUSA 29, 1933

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2011

का.आ. 89(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का. आ. 160, तारीख 10 जनवरी, 2011, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड - 3, उपखण्ड (ii), तारीख 15 जनवरी, 2011 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 552.853 हेक्टर (लगभग) या 1366.15 एकड़ (लगभग) है, के पूर्वक्षण के आशय की सूचना दी थी;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची (अनुसूचियों) में विहित उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 294.293 हेक्टर (लगभग) या 727.198 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार और 254.838 हेक्टर (लगभग) या 629.704 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के खनन के सभी अधिकारों का अर्जन करने की, अपने आशय की सूचना देती है ।

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या सी - 1(ई) III/जीआर/857 - 0511, तारीख 14 मई, 2011 को जिला अधिकारी, छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता (पिन-700 001) के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व विभाग), कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण 2 : उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है :-

अर्जन की बाबत आपत्तियाँ :

“8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबद् धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.-

- (1) इस धारा के अर्थात्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।
- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।
- (3) इस धारा के प्रयोजन के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।”

टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना सं. का. आ. 2519, तारीख 27 मई, 1983 द्वारा जो भारत के राजपत्र, भाग- II, खण्ड - 3, उपखण्ड (ii), तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित की गई थी, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची - 'क'

(भाग - 'क')

धनकासा अंडरग्राउंड माईन

पेंच क्षेत्र

जिला - छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या सी. - I(ई)III/जीआर/857 - 0511, तारीख 14 मई, 2011)

सभी अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नाम / वन का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	कम्पार्टमेंट संख्या / ब्लॉक संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल हेक्टर में	टिप्पणी
1	सेजवाड़ा खुर्द	81	-	अमरवाड़ा	छिन्दवाड़ा	24.302	भाग
2	बॉकी	89	-	अमरवाड़ा	छिन्दवाड़ा	3.008	भाग
3	बेहरिया	89	-	अमरवाड़ा	छिन्दवाड़ा	76.127	भाग
4	नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट	-	738/41	-	छिन्दवाड़ा	31.983	भाग
5	नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट	-	739/41	-	छिन्दवाड़ा	123.658	भाग
6	नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट	-	740/41	-	छिन्दवाड़ा	4.650	भाग

कुल : 263.728 हेक्टर

(लगभग)

या 651.672 एकड़

(लगभग)

अनुसूची - 'ख'
(भाग - 'ख')
धनकासा अंडरग्राउंड माईन
पेंच क्षेत्र
जिला - छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या सी. - १(ई)॥॥/जीआर/८५७ - ०५११, तारीख १४ मई, २०११)

सभी अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नाम / वन का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	कम्पार्टमेंट संख्या / ब्लॉक संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल हेक्टर में	टिप्पणी
1	बेहरिया	89	-	अमरवाड़ा	छिन्दवाड़ा	5.416	भाग

कुल : 5.416 हेक्टर (लगभग)
या 13.383 एकड़ (लगभग)

अनुसूची - 'ग'
(भाग - 'ग')
धनकासा अंडरग्राउंड माईन
पेंच क्षेत्र
जिला - छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या सी. - १(ई)॥॥/जीआर/८५७ - ०५११, तारीख १४ मई, २०११)

सभी अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नाम / वन का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	कम्पार्टमेंट संख्या / ब्लॉक संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल हेक्टर में	टिप्पणी
1	पायली	29	-	परासिया	छिन्दवाड़ा	11.757	भाग

कुल : 11.757 हेक्टर (लगभग)
या 29.052 एकड़ (लगभग)

अनुसूची - 'घ'
(भाग - 'घ')
धनकासा अंडरग्राउंड माईन
पेंच क्षेत्र
जिला - छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या सी. - I(ई)IIII/जीआर/857 - 0511, तारीख 14 मई, 2011)

सभी अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नाम / वन का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	कम्पार्टमेंट संख्या / ब्लॉक संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल हेक्टर में	टिप्पणी
1	नेहरिया आरक्षित वन	-	740/41	परासिया	छिन्दवाड़ा	13.392	भाग

कुल क्षेत्र:- 13.392 हेक्टर (लगभग)
या 33.092 एकड़ (लगभग)

सभी अधिकार :

अनुसूची 'क' + अनुसूची 'ख' + अनुसूची 'ग' + अनुसूची 'घ' = कुल क्षेत्र

263.728 + 5.416 + 11.757 + 13.392 = 294.293 हेक्टर (लगभग)

या

651.671 + 13.383 + 29.052 + 33.092 = 727.198 एकड़ (लगभग)

सभी अधिकार :

भाग - 'क'

(क) ग्राम सेजवाड़ा खुर्द में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

(1) निजी भूमि :-

399, 400 (भाग), 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 403, 404, 406/1, 406/2, 408 (भाग), 409/1- 410/1, 409/2- 410/2, 409/3- 410/3, 409/4- 410/4 (भाग) ।

(2) सरकारी वन भूमि :-

394 (भाग), 401, 405, 407 (भाग), 421 (भाग), 437 (भाग) ।

(3) आरक्षित वन भूमि :-

कम्पार्टमेंट संख्या 738, ब्लॉक संख्या - 41 (भाग), कम्पार्टमेंट संख्या 739, ब्लॉक संख्या - 41 (भाग), कम्पार्टमेंट संख्या 740, ब्लॉक संख्या - 41 (भाग) ।

(ख) ग्राम बाँकी में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

(1) निजी भूमि :- 54 (भाग) ।

(2) सरकारी वन भूमि :- 53/1(भाग), 55 (भाग), 56 (भाग) ।

(ग) ग्राम बेहरिया में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

(1) निजी भूमि :-

1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3, 5/1 (भाग), 5/2, 5/3, 6 (भाग), 7/1 (भाग), 7/2 (भाग), 27/1, 27/2, 27/3, 27/4- 281/2, 27/5- 281/3, 44/1- 45/1, 4/3- 45/2, 44/4- 45/3, 44/5- 45/4, 51/2, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 52/3, 53, 72/1ख, 72/1ग- 72/1घ- 81/1ख- 81/1घ (भाग), 72/2, 73 (भाग), 80- 81/2- 81/3 (भाग), 82 (भाग), 84, 85, 86, 87, 88/1क, 88/1ख, 88/1ग, 88/1घ, 88/2, 88/6, 88/7, 88/8, 89/1- 90/1 (भाग), 89/2- 90/2 (भाग), 89/3- 90/3 (भाग), 89/4- 90/4

(भाग), 91/1 (भाग), 91/2 (भाग), 92/1, 92/2, 93, 94/1ख, 94/2ख (भाग), 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5 (भाग), 96/1क (भाग), 96/1ख (भाग), 108/2, 108/1क, 108/1ख (भाग), 108/1ग (भाग), 110 (भाग), 111, 112, 113/2, 113/3, 113/4, 114, 115/1, 115/2 (भाग), 115/3 (भाग), 115/4 (भाग), 115/5 (भाग), 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 120/3, 120/8, 120/9, 284 (भाग), 291/1-292/2, 298/1, 340/1-345/1, 355 (भाग), 256/1, 256/2-256/3, 379/1-379/2 ।

(2)सरकारी भूमि :-

44/2, 54 (भाग), 107 (भाग), 109, 285, 287, 384/1 ।

(3)सरकारी वन भूमि :-

4, 46/1क, 72/1क (भाग), 81/1क (भाग), 83 (भाग), 94/1क (भाग), 113/1, 117, 120/1 291/1-297/4, 353/1 (भाग), 354 (भाग) ।

(4)आरक्षित वन क्षेत्र :-

कम्पार्टमेंट संख्या 740, ब्लॉक संख्या - 41 ।

सभी अधिकार :

भाग - 'ख'

(क) ग्राम बेहरिया में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

(1)निजी भूमि :-

98/1- 99/1- 137/1- 138/2, 98/5- 99/4- 137/5- 138/6, 134/1, 134/2 (भाग), 134/3, 134/4 (भाग), 135/1, 135/2 (भाग), 135/3, 137/3, 140 (भाग), 147 (भाग) ।

(2)सरकारी भूमि :-136, 138/1 ।

(3)सरकारी वन भूमि :- 143/1 (भाग), 148 (भाग), 149/1 (भाग) ।

सभी अधिकार :

भाग - 'ग'

(क) ग्राम पायली में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

(1) निजी भूमि :-

243/1, 243/2, 244/1, 244/2, 245 (भाग), 246 (भाग), 247 (भाग), 248, 249, 250, 251 (भाग), 252 (भाग), 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 (भाग) ।

सभी अधिकार :

भाग - 'घ'

(क) नेहरिया आरक्षित वन क्षेत्र में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 740, ब्लॉक संख्या - 41 ।

सीमा वर्णन :

सभी अधिकार :

भाग - 'क'

क1-क2-क3-क4 : रेखा ग्राम बेहरिया में बिन्दु 'क1' से आरंभ होती है और बिन्दु 'क2' - 'क3' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 51/2, 53, 42/2 (सरकारी), 44/3- 45/2, 44/1- 45/1 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'क4' पर मिलती है ।

क4-क5-क6-क7 : रेखा ग्राम बेहरिया से बिन्दु 'क5' - 'क6' से होकर गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 44/4- 45/3, 44/5- 45/4, 46/1क (वन), 27/2, 27/1, 27/3, 27/4- 281/2, 27/5- 281/3 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'क7' पर मिलती है ।

क7-क8-क9-

क10-क11 :

रेखा ग्राम बेहरिया से बिन्दु 'क8' - 'क9' - 'क10' से होकर गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 285 (सरकारी), 284, 287 (सरकारी), 298/1, 291/1- 292/2 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है, फिर प्लॉट संख्या 384/1 (सरकारी) से होकर गुजरती है, फिर प्लॉट संख्यांक 379/1, 379/2, 353/1(वन) की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है, फिर प्लॉट संख्या 354 (भाग) (वन) से होकर गुजरती है और बिन्दु 'क11' पर मिलती है ।

क11-क12-क13 :

रेखा ग्राम बेहरिया से बिन्दु 'क12' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 355, 356/2- 356/3, 356/1, 340/1- 345/1 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और ग्राम बेहरिया और वन कम्पार्टमेंट संख्या 740, ब्लॉक संख्या - 41 की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु 'क13' पर मिलती है ।

क13-क14-क15-

क16-क17-क18-

क19-क 20- क21-

क22- क23 :

रेखा वन कम्पार्टमेंट संख्या 740, ब्लॉक संख्या - 41 से बिन्दु 'क14' - 'क15' - 'क16' - 'क17' - 'क18' - 'क19' - 'क20' - 'क21' - 'क22' के पास से गुजरती हुई वन कम्पार्टमेंट संख्या 740, ब्लॉक संख्या - 41 और ग्राम बेहरिया की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु 'क23' पर मिलती है ।

क23-क24-क25-

क26-क27-क28 :

रेखा ग्राम बेहरिया में प्लॉट संख्यांक 340/1- 345/1 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर बिन्दु 'क24' के पास से होकर गुजरती है, फिर प्लॉट संख्या 356/1 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती हुई बिन्दु 'क25' के पास से गुजरती है, फिर प्लॉट संख्या 355 से गुजरती हुई बिन्दु 'क26' के पास से गुजरती है, फिर प्लॉट संख्या 354(वन) से होकर गुजरती है, फिर बिन्दु 'क27' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्या 353/1 से होकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्यांक 379/2, 379/1 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती हुई बिन्दु 'क28' पर मिलती है ।

क28-क29-क30-

क31-क32 :

रेखा ग्राम बेहरिया में बिन्दु 'क29' - 'क30' - 'क31' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 379/1, 384/1 (सरकारी), 291/1-292/2, 298/1, 287 (सरकारी), 284, 285 (सरकारी), 27/5-281/3, 27/4- 281/2, 27/3, 27/1, 46/1क (वन), 44/5-45/4, 44/4- 45/3, 44/1- 45/1, 52/3 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'क32' पर मिलती है ।

क32-क33-क34 :

रेखा ग्राम बेहरिया से प्लॉट संख्या 51/3 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है, फिर प्लॉट संख्यांक 54 (सरकारी), 72/1ग-72/1घ- 81/1ख- 81/1घ, से होकर गुजरती है, फिर प्लॉट संख्या 72/1ख की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है, फिर प्लॉट संख्यांक 81/1क (वन), 73, से होकर गुजरती हुई बिन्दु 'क33' के पास से गुजरती है और प्लॉट संख्यांक 72/1क (वन), 80-81/2- 81/3- 81/1क (वन), 82, 83 (वन), 5/1, 6, 7/2, 7/1, से होकर गुजरती है और बिन्दु 'क34' पर मिलती है ।

क34-क35-क36-

क37-क38 :

रेखा ग्राम बेहरिया से बिन्दु 'क35' - 'क36' - 'क37' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 7/1, 7/2, 6, 1/3, 1/2, 1/4, 2/2, 2/1, 4 (वन), 3, की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है, फिर ग्राम बेहरिया और नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 739 की सम्मिलित सीमा से गुजरती है और बिन्दु 'क38' पर मिलती है ।

क38-क39-क40-

क41-क42-क43-

क44-क45-क46 :

रेखा नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 739, ब्लॉक संख्या- 41 से होकर गुजरती है और बिन्दु 'क39' - 'क40' - 'क41' - 'क42' - 'क43' - 'क44' के पास से गुजरती हुई नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 738, ब्लॉक संख्या -

41 से होकर गुजरती है और बिन्दु 'क45' के पास से गुजरती हुई नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 738, ब्लॉक संख्या - 41 और ग्राम सेजवाड़ा खुर्द की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु 'क46' पर मिलती है ।

क46-क47-क48-

क49-क50-क51-

क52-क53 :

रेखा ग्राम सेजवाड़ा खुर्द से बिन्दु 'क47' - 'क48' - 'क49' - 'क50' - 'क51' - 'क52' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 405 (वन), 399 , की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है, फिर प्लॉट संख्यांक 400, 394 (वन), 421 (वन), से होकर गुजरती है, फिर प्लॉट संख्यांक 421 (वन), 394 (वन), 437 (वन), की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'क53' पर मिलती है ।

क53-क54-क55-

क56-क57 :

रेखा ग्राम सेजवाड़ा खुर्द से प्लॉट संख्यांक 437 (वन), 410/4, 408, से होकर गुजरती है फिर बिन्दु 'क54' के पास से गुजरती है और प्लॉट संख्यांक 407, 408, से होकर गुजरती है और ग्राम सेजवाड़ा खुर्द और नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 738, ब्लॉक संख्या - 41 की सम्मिलित सीमा को पार करती है फिर नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 738, ब्लॉक संख्या - 41 से होकर बिन्दु 'क55' - 'क56' के पास से गुजरती है और

नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 739, ब्लॉक संख्या - 41 से होकर गुजरती है और नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 739, ब्लॉक संख्या - 41 तथा ग्राम नेहरिया की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु 'क57' पर मिलती है ।

क57-क58-

क59-क60 : रेखा ग्राम बेहरिया से होकर प्लॉट संख्यांक 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, से होकर गुजरती है फिर ग्राम बेहरिया और ग्राम बाँकी की सम्मिलित सीमा को पार करती है फिर बिन्दु 'क58' - 'क59' के पास से गुजरती हुई ग्राम बाँकी से प्लॉट संख्यांक 53/1 (वन), 54, 55 (वन), 56, से होकर गुजरती है और ग्राम बाँकी तथा ग्राम बेहरिया की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु 'क60' पर मिलती है ।

क60-क61-क62-

क63-क64-क65-

क66-क67-

क68-क69 : रेखा ग्राम बाँकी तथा ग्राम बेहरिया की सम्मिलित सीमा से लगकर गुजरती है, फिर ग्राम बेहरिया में बिन्दु 'क61' - 'क62' - 'क63' - 'क64' - 'क65' - 'क66' - 'क67' - 'क68' के पास से होकर गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 120/1 (वन), 117 (वन), 110, 109 (सरकारी) की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'क69' पर मिलती है ।

क69-क70-क71 : रेखा ग्राम बेहरिया से प्लॉट संख्यांक 108/1ग, 108/1ख, 108/1क, 107 (सरकारी), 96/1ख, 96/1क, 94/1क (वन), 95/5, से होकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्या 94/1क (वन), से होकर गुजरती है फिर बिन्दु 'क70' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 91/2, 91/1, से होकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्यांक 94/1क (वन), 94/2ख, 89/1- 90/1, 89/2- 90/2, 89/3- 90/3, 89/4- 90/4, 72/1क (वन), से होकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्या 72/2 की बाह्य सीमा से गुजरती है और बिन्दु 'क71' पर मिलती है ।

क71-क1 : रेखा ग्राम बेहरिया से प्लॉट संख्यांक 72/1क (वन), 73, फिर प्लॉट संख्या 72/1क (वन) से होकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्यांक 72/1ख, 72/1ग- 72/1घ- 81/1ख- 81/1घ, 54 (सरकारी) की बाह्य सीमा से होकर तथा लगकर गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'क1' पर मिलती है ।

भाग - 'ख'

ख1-ख2 : रेखा ग्राम बेहरिया में बिन्दु 'ख1' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्यांक 135/2, 134/2, 134/4, 148 (वन), से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ख2' पर मिलती है ।

ख2-ख3-ख4-

ख5-ख6 : रेखा ग्राम बेहरिया से होकर प्लॉट संख्यांक 147, 149/1 (वन), से होकर गुजरती है फिर बिन्दु 'ख3' - 'ख4' - 'ख5' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्या 143/1 (वन) से होकर तथा लगकर गुजरती हुई बिन्दु 'ख6' पर मिलती है ।

ख6-ख7-ख1 :

रेखा ग्राम बेहरिया में प्लॉट संख्या 140 से होकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्या 137/3 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती हुई बिन्दु 'ख7' के पास से गुजरती है और फिर प्लॉट संख्यांक 98/5- 99/4- 137/5- 138/6, 136 (सरकारी), की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर बिन्दु 'ख8' के पास से गुजरती है और प्लॉट संख्यांक 135/1, 135/3, 135/2, की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'ख1' पर मिलती है

भाग - 'ग'

- ग1-ग2-ग3 : रेखा ग्राम पायली में बिन्दु 'ग1' से आरंभ होती है और बिन्दु 'ग2' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 258, 257, 256, 255, 254, 251, 252, की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती हुई बिन्दु 'ग3' पर मिलती है ।
- ग3-ग4-ग5-ग6 : रेखा ग्राम पायली से प्लॉट संख्या 252 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर बिन्दु 'ग4' - 'ग5' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 252, 251, 247, से होकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्या 248 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्यांक 246, 245 से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ग6' पर मिलती है ।
- ग6-ग7-ग8-
ग9-ग1 : रेखा ग्राम पायली से बिन्दु 'ग7' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 243/2, 243/1, 244/2, की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्या 261 से होकर बिन्दु 'ग8' - 'ग9' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 260, 258 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'ग1' पर मिलती है ।

भाग - 'घ'

- घ1-घ2-घ3-घ4-
घ5-घ6-घ1 : रेखा नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 740, ब्लॉक संख्या- 41 में बिन्दु 'घ1' से आरंभ होती है और नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 740, ब्लॉक संख्या - 41 से होती हुई बिन्दु 'घ2' - 'घ3' - 'घ4' - 'घ5' - 'घ6' के पास से गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु 'घ1' पर मिलती है

अनुसूची - 'ड.'

(भाग - 'ड.')

धनकासा अंडरग्राउंड माईन

पेंच क्षेत्र

जिला - छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या सी. - I(ई)III/जीआर/857 - 0511, तारीख 14 मई, 2011)

खनन अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नाम / वन का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	कम्पार्टमेंट संख्या / ब्लॉक संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल हेक्टर में	टिप्पणी
1	पायली	29	-	परासिया	छिन्दवाड़ा	43.659	भाग
2	सेजवाड़ा खुर्द	81	-	अमरवाड़ा	छिन्दवाड़ा	0.591	भाग
3	बेहरिया	89	-	अमरवाड़ा	छिन्दवाड़ा	9.779	भाग
4	नेहरिया आरक्षित वन	-	736/41	-	छिन्दवाड़ा	6.544	भाग
5	नेहरिया आरक्षित वन	-	737/41	-	छिन्दवाड़ा	25.120	भाग
6	नेहरिया आरक्षित वन	-	738/41	-	छिन्दवाड़ा	35.632	भाग
7	नेहरिया आरक्षित वन	-	739/41	-	छिन्दवाड़ा	84.827	भाग
8	नेहरिया आरक्षित वन	-	740/41	-	छिन्दवाड़ा	14.341	भाग

कुल : 220.493 हेक्टर (लगभग)

या 544.838 एकड़ (लगभग)

अनुसूची - 'च'
(भाग - 'च')
धनकासा अंडरग्राउंड माईन
पेंच क्षेत्र
जिला - छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या सी. - I(ई)III/जीआर/857 - 0511, तारीख 14 मई, 2011)

खनन अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नाम / वन का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	कम्पार्टमेंट संख्या / ब्लॉक संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल हेक्टर में	टिप्पणी
1	सेजवाड़ा खुर्द	81	57	अमरवाड़ा	छिन्दवाड़ा	7.433	भाग

कुल :- 7.433 हेक्टर (लगभग)
या 18.367 एकड़ (लगभग)

अनुसूची - 'छ'
(भाग - 'छ')
धनकासा अंडरग्राउंड माईन
पेंच क्षेत्र
जिला - छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या सी. - I(ई)III/जीआर/857 - 0511, तारीख 14 मई, 2011)

खनन अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नाम / वन का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	कम्पार्टमेंट संख्या / ब्लॉक संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल हेक्टर में	टिप्पणी
1	बेहरिया	89	-	अमरवाड़ा	छिन्दवाड़ा	26.912	भाग

कुल : 26.912 हेक्टर (लगभग)
या 66.499 एकड़ (लगभग)

खनन अधिकार

अनुसूची 'इ' + अनुसूची 'च' + अनुसूची 'छ' = कुल क्षेत्र

220.493 + 7.433 + 26.912 = 254.838 हेक्टर (लगभग)

या

544.838 + 18.367 + 66.499 = 629.704 एकड़ (लगभग)

खनन अधिकार :

भाग - 'इ'

(क) ग्राम पायली में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

(1) निजी भूमि :

167, 168 (भाग), 169, 170, 172, 173, 174 (भाग), 175, 177 (भाग), 188 (भाग), 196, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221, 222, 225, 229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/5, 231/6, 231/7, 231/8, 231/9, 231/10, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 340, 241, 242/1, 242/2, 261 (भाग), 262/1, 262/2, 262/3, 263, 264, 265, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4 ।

(2) सरकारी भूमि :

171 (भाग), 226, 227, 267 ।

(3) सरकारी वन भूमि :

154 (भाग), 195/1- 195/3 (भाग), 216, 217, 219, 220, 223, 224, 228, 232 ।

आरक्षित वन भूमि (नेहरिया) :

कम्पार्टमेंट संख्या 736, ब्लॉक संख्या 41 (भाग), कम्पार्टमेंट संख्या 737, ब्लॉक संख्या 41 (भाग), कम्पार्टमेंट संख्या 738, ब्लॉक संख्या 41 (भाग), कम्पार्टमेंट संख्या 739, ब्लॉक संख्या 41 (भाग), कम्पार्टमेंट संख्या 740, ब्लॉक संख्या 41 (भाग) ।

ग्राम सेजवाड़ा खुर्द में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

i) सरकारी वन भूमि :

398 ।

ग्राम बेहरिया में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

i) निजी भूमि :-

9/1, 9/2, 10 ।

ii) सरकारी भूमि :-

1/1, 8/1, 11 ।

खनन अधिकार :

भाग - 'च'

ग्राम सेजवाड़ा खुर्द में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

निजी भूमि :

411 (भाग), 412 (भाग), 413/1 (भाग), 413/2 (भाग), 413/3 (भाग), 414 (भाग) ।

सरकारी भूमि : 421 (भाग) ।

खनन अधिकार :

भाग - 'छ'

ग्राम बेहरिया में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

(1) निजी भूमि :

62- 63- 68/3- 237/4 (भाग), 64 (भाग), 66/1 (भाग), 66/2, 68/2- 237/3 (भाग), 68/4- 97/1घ- 98/2 (भाग), 98/3क- 99/2क- 137/2क- 138/3क, 98/3ख- 99/3ख- 137/2ख- 138/3ख, 98/3ग- 99/2ग- 137/2ग- 138/3ग, 98/3घ- 99/2घ- 137/2घ- 138/3घ, 98/3ङ- 99/2ङ- 137/2ङ- 138/3ङ- 98/6 (भाग), 100/2 (भाग), 102/1, 102/2 (भाग), 102/3, 102/4क (भाग), 102/4ख, 102/4घ, 102/9, 105, 110 (भाग), 118/1- 119/1- 120/4- 120/6, 120/2क- 122/2क- 123/1- 124/2क- 124/4क, 120/2ख- 122/2ख- 123/2- 124/2ख- 124/4ख, 120/2ग- 122/2ग- 123/3- 124/2ग- 124/4ग, 120/2घ- 122/2घ- 123/4- 124/4, 120/2ङ- 122/2ङ- 123/2ङ- 124/2ङ- 124/4ङ, 121/1, 121/2, 124/3, 125/1, 125/2 (भाग), 125/3 (भाग), 126/1 (भाग), 126/2 (भाग), 126/3 (भाग), 139/1, 139/2, 140 (भाग), 141/1, 141/2, 142 (भाग) ।

(2) सरकारी भूमि :

104 (भाग), 106 (भाग), 124/1 ।

(3) सरकारी वन भूमि :

68/1 (भाग), 120/5, 120/7, 122/1, 130/1, 237/1 (भाग) ।

सीमा वर्णन :

खनन अधिकार :

भाग - 'इ'

इ1-इ2-इ3-इ4 : रेखा ग्राम बेहरिया में बिन्दु 'इ1' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्यांक 8/1 (सरकारी), 11, से होकर गुजरती है और बिन्दु 'इ2' के पास से गुजरती हुई फिर प्लॉट संख्यांक 11, 10, 9/2, से होकर गुजरती है फिर बिन्दु 'इ3' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्या 9/1 से गुजरती है फिर ग्राम बेहरिया और नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 740, ब्लॉक संख्या - 41 की सम्मिलित सीमा को पार करती है और प्लॉट संख्या 11 (सरकारी) को पार करती है और नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 740, ब्लॉक संख्या - 41 में बिन्दु 'इ4' पर मिलती है ।

इ4-इ5-इ6-इ7-इ8-

इ9-इ10-इ11 : रेखा नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 740, ब्लॉक संख्या- 41 में बिन्दु 'इ5' - 'इ6' - 'इ7' - 'इ8' - 'इ9' - 'इ10' के पास से गुजरती हुई बिन्दु 'इ11' पर मिलती है ।

इ11-इ12-इ13 : रेखा नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 740, ब्लॉक संख्या- 41 से होकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्या 11 (सरकारी) से होकर गुजरती है और फिर नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 739, ब्लॉक संख्या - 41 की बाह्य सीमा से होती हुई बिन्दु 'इ12' के पास से गुजरती है और नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 739, ब्लॉक संख्या - 41 तथा ग्राम पायली की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु 'इ13' पर मिलती है ।

इ13-इ14-इ15-इ16 : रेखा ग्राम पायली में प्लॉट संख्यांक 267 (सरकारी), 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर बिन्दु 'इ14' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 265, 264, 262/2, की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्या 261 से होकर गुजरती है और बिन्दु 'इ15' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 242/1, 154 (वन), की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'इ16' पर मिलती है ।

इ16-इ17-इ18-इ19-

इ20-इ21-इ22-इ23 : रेखा ग्राम पायली में प्लॉट संख्या 154(वन) से होकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्या 167 से लगकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्या 168 से होकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्यांक 169, 170 से लगकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्यांक 171 (सरकारी), 177, से होकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्या 175 से लगकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्यांक 174, 195/1 (वन), 188, से होकर गुजरती हुई बिन्दु 'इ17' के पास से होकर गुजरती है और फिर प्लॉट संख्या 195/1 (वन), से होकर गुजरती हुई बिन्दु 'इ18' के पास से गुजरती है और प्लॉट संख्या 197/1 से लगकर गुजरती है फिर ग्राम पायली तथा वन कम्पार्टमेंट संख्या 736, ब्लॉक संख्या - 41, की सम्मिलित सीमा को पार करती है फिर रेखा बिन्दु 'इ19'- 'इ20' - 'इ21' - 'इ22' के पास से गुजरती हुई नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 736, ब्लॉक संख्या - 41, नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 737, ब्लॉक संख्या - 41, नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 738, ब्लॉक संख्या - 41, से होकर गुजरती है और नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 738, ब्लॉक संख्या - 41 और ग्राम सेजवाड़ा खुर्द की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु 'इ23' पर मिलती है ।

इ23-इ24-इ25-इ26 : रेखा ग्राम सेजवाड़ा खुर्द से बिन्दु 'इ24' - 'इ25' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्या 398 (वन) से होकर और बाहय सीमा से लगकर गुजरती है और ग्राम सेजवाड़ा खुर्द तथा वन कम्पार्टमेंट संख्या 738, ब्लॉक संख्या - 41, की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु 'इ26' पर मिलती है ।

इ26-इ27-इ28-इ29-

इ30-इ31-इ32-इ33-

इ34-इ35-इ36-इ37-

इ38-इ39-इ40 : रेखा नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 738, ब्लॉक संख्या- 41, से होकर बिन्दु 'इ27' - 'इ28' - 'इ29' - 'इ30' - 'इ31' - 'इ32' - 'इ33' - 'इ34' - 'इ35' - 'इ36' - 'इ37' - 'इ38' - 'इ39', के पास से गुजरती हुई नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 739, ब्लॉक संख्या - 41, से गुजरती है और नेहरिया आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 739, ब्लॉक संख्या - 41 तथा ग्राम बेहरिया की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु 'इ40' पर मिलती है ।

इ40-इ41-इ42-इ43-

इ44-इ1 : रेखा ग्राम बेहरिया में बिन्दु 'इ41' - 'इ42' - 'इ43' - 'इ44' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 1/1 (सरकारी), 8/1 (सरकारी), की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु 'इ1' पर मिलती है ।

भाग - 'च'

च1-च2-च3-

च4-च5-च6 : रेखा ग्राम सेजवाड़ा खुर्द में बिन्दु 'च1' से आरंभ होती है फिर प्लॉट संख्यांक 413/3, 411, की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती हुई बिन्दु 'च2' - 'च3' - 'च4' - 'च5' के पास से जाती है और बिन्दु 'च6' पर मिलती है ।

च6-च7-च8-च1 : रेखा प्लॉट संख्या 411 से होकर गुजरती है फिर बिन्दु 'च7' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 412, 421 (वन), 414, से होकर गुजरती हुई बिन्दु 'च8' के पास से जाती है फिर प्लॉट संख्यांक 413/2, 413/1, 413/3, से होकर गुजरती है और बिन्दु 'च1' पर मिलती है ।

भाग - 'छ'

- छ1-छ2-छ3 : रेखा ग्राम बेहरिया में बिन्दु 'छ1' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्यांक 120/2क- 122/2क- 123/1- 124/2क- 124/4क, की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर बिन्दु 'छ2' के पास से गुजरती है और प्लॉट संख्या 121/2 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'छ3' पर मिलती है ।
- छ3-छ4-छ5 : रेखा ग्राम बेहरिया में प्लॉट संख्यांक 98/3घ- 99/2घ- 137/2घ- 138/3घ- 139/1, की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर रेखा प्लॉट संख्या 140 से होकर बिन्दु 'छ4' के पास से गुजरती है फिर प्लॉट संख्या 141/1 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'छ5' पर मिलती है ।
- छ5-छ6-छ7 : रेखा ग्राम बेहरिया में प्लॉट संख्या 142 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर बिन्दु 'छ6' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 142, 237/1 (वन), 68/1 (वन), 68/2- 237/3, 62- 63- 68/3- 237-4, 64, 68/1 (वन) से होकर गुजरती है और बिन्दु 'छ7' पर मिलती है ।
- छ7-छ8 : रेखा ग्राम बेहरिया में प्लॉट संख्यांक 68/1 (वन), 66/1 से होती हुई पुनः प्लॉट संख्या 68/1 (वन) से होकर गुजरती है और बिन्दु 'छ8' पर मिलती है ।
- छ8-छ9-
छ10-छ11 : रेखा ग्राम बेहरिया से प्लॉट संख्यांक 68/4- 97/1घ- 98/2, 98/6, 121/2, 100/2, 102/4क, 104 (सरकारी), 102/2, 105 से होकर गुजरती है फिर बिन्दु 'छ9' के पास से जाती हुई प्लॉट संख्या 106 से होती हुई बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्यांक 110 से होती हुई बिन्दु 'छ10' के पास से गुजरती है फिर प्लॉट संख्यांक 110, 120/5 (वन) की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'छ11' पर मिलती है ।

छ11-छ12-छ13-

छ14-छ15-छ16 : रेखा ग्राम बेहरिया से प्लॉट संख्यांक 118/1- 119/1- 120/4- 120/6, की बाह्य सीमा से लगकर, बिन्दु 'छ12' - 'छ13' - 'छ14' - 'छ15' के पास से गुजरती हुई बिन्दु 'छ16' पर मिलती है ।

छ16-छ17-छ18-

छ19-छ20-छ1 : रेखा ग्राम बेहरिया के प्लॉट संख्या 122/1 (वन) की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर बिन्दु 'छ17' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 120/2घ- 122/2घ- 123/4- 124/4, की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'छ18' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 120/2ङ-122/2ङ-123/2ङ-124/2ङ-124/4ङ, 120/7(वन), 124/1 (सरकारी), की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर बिन्दु 'छ19' के पास से जाती हुई प्लॉट संख्यांक 124/3, 124/1, की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर बिन्दु 'छ20' के पास से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 126/1, 126/2, 126/3, 130/1 (वन), 125/2, 125/3, से होकर गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'छ1' पर मिलती है ।

[फा. सं. 43015/12/2010-पी.आर.आई.डब्ल्यू.-1]

ए. के. दास, अवर सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2011

S.O.89(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S. O. 160 dated the 10th January, 2011, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part – II, Section – 3, Sub-Section (ii) dated the 15th January, 2011, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 552.853 hectares (approximately) or 1366.15 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification ;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of said lands prescribed in the schedule (s) appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire all rights in or over the land measuring 294.293 hectares (approximately) or 727.198 acres (approximately) and Mining Rights in 254.838 hectares (approximately) or 629.704 acres (approximately) of the land described in Schedules.

Note 1: The plan bearing number C-1(E) III/GR/857-0511, dated the 14th May, 2011 of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Collector, Chhindwara (Madhya-Pradesh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata (Pin - 700 001) or at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur - 440 001 (Maharashtra).

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of Section 8 of the said Act which provides as follows :-

Objections to Acquisition:

"8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued, may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation -

(1) It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3: The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata- 700 001 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S.O. 2519 dated the 27th May, 1983, published in Part- II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE – 'A'

(PART – A)

**Dhankasa Underground Mine
Pench Area
District- Chhindwara (Madhya Pradesh)**

(Plan bearing number C-1(E) III/GR/857-0511, dated the 14th May, 2011)

ALL RIGHTS :

Sl. No	Name of village/ Forest	Patwari Circle number	Compartment number/ Block number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	Sejwara Khurd	81	-	Amarwara	Chhindwara	24.302	Part
2	Bankee	89	-	Amarwara	Chhindwara	3.008	Part
3	Beheria	89	-	Amarwara	Chhindwara	76.127	Part
4	Neheria Reserve Forest	-	738/41	-	Chhindwara	31.983	Part
5	Neheria Reserve Forest	-	739/41	-	Chhindwara	123.658	Part
6	Neheria Reserve Forest	-	740/41	-	Chhindwara	4.650	Part

Total : 263.728 hectares
(approximately)
or 651.672 acres
(approximately)

SCHEDULE – 'B'

(PART – B)

Dhankasa Underground Mine
Pench Area
District- Chhindwara (Madhya Pradesh)

(Plan bearing number C-1(E) III/GR/857-0511, dated the 14th May, 2011)

ALL RIGHTS :

Sl. No	Name of village/ Forest	Patwari Circle number	Compartment number/ Block number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	Beheriya	89	-	Amarwara	Chhindwara	5.416	Part

Total : 5.416 hectares
(approximately)
or 13.383 acres
(approximately)

SCHEDULE – 'C'

(PART – C)

Dhankasa Underground Mine
Pench Area
District- Chhindwara (Madhya Pradesh)

(Plan bearing number C-1(E) III/GR/857-0511, dated the 14th May, 2011)

ALL RIGHTS :

Sl. No	Name of village/ Forest	Patwari Circle number	Compartment number/ Block number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	Paylee	29	-	Parasia	Chhindwara	11.757	Part

Total : 11.757 hectares
(approximately)
or 29.052 acres
(approximately)

SCHEDULE – 'D'

(PART – D)

Dhankasa Underground Mine
Pench Area
District- Chhindwara (Madhya Pradesh)

(Plan bearing number C-1(E) III/GR/857-0511, dated the 14th May, 2011)

ALL RIGHTS :

Sl. No	Name of village/ Forest	Patwari Circle number	Compartment number/ Block number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	Neheria Reserve Forest	-	740/41	Parasia	Chhindwara	13.392	Part

Total : 13.392 hectares
(approximately)
or 33.092 acres
(approximately)

All Rights :

Schedule-'A' + Schedule-'B' + Schedule-'C' + Schedule-'D' = Total Area

263.728	+	5.416	+	11.757	+	13.392		
							=	294.293 hectares
								(approximately)
651.671	+	13.383	+	29.052	+	33.092	=	727.198 acres
								(approximately)

All Rights :

PART – 'A'

(A) Plot numbers to be acquired in village Sejawara Khurd :

(1) Tenancy Land :-

399, 400 (P), 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 403, 404, 406/1, 406/2, 408 (P),
409/1- 410/1, 409/2- 410/2, 409/3- 410/3, 409/4- 410/4 (P).

(2) Government Forest Land :-

394 (P), 401, 405, 407 (P), 421 (P), 437 (P).

(3) Reserve Forest land :-

Compartment Number 738- Block Number 41 (P), Compartment Number 739 – Block 41 (P), Compartment Number 740 – Block 41 (P).

(B) Plot numbers to be acquired in village Bankee :

(1) Tenancy Land :- 54 (P).

(2) Government Forest Land :- 53/1 (P), 55 (P), 56 (P).

(C) Plot numbers to be acquired in village Beheria :

(1) Tenancy Land :-

1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3, 5/1 (P), 5/2, 5/3, 6(P), 7/1 (P), 7/2 (P), 27/1, 27/2, 27/3, 27/4- 281/2, 27/5- 281/3, 44/1- 45/1, 44/3- 45/2, 44/4- 45/3, 44/5- 45/4, 51/2, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 52/3, 53, 72/1B, 72/1C- 72/1D-81/1B- 81/1D (P), 72/2, 73 (P), 80- 81/2- 81/3 (P), 82 (P), 84, 85, 86, 87, 88/1A, 88/1B, 88/1C, 88/1D, 88/2, 88/6, 88/7, 88/8, 89/1- 90/1 (P), 89/2- 90/2 (P), 89/3- 90/3 (P), 89/4- 90/4 (P), 91/1 (P), 91/2 (P), 92/1, 92/2, 93, 94/1B, 94/2A, 94/2B (P), 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5 (P), 96/1A (P), 96/1B (P), 108/2, 108/1A, 108/1B (P), 108/1C (P), 110 (P), 111, 112, 113/2, 113/3, 113/4, 114, 115/1, 115/2 (P), 115/3 (P), 115/4 (P), 115/5 (P), 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 120/3, 120/8, 120/9- 284(P), 291/1- 292/2, 298/1, 340/1- 345/1, 355 (P), 356/1, 356/2- 356/3, 379/1, 379/2 .

(2) Government Land :-

44/2, 54 (P), 107 (P), 109, 285, 287, 384/1.

(3) Government Forest Land :-

4, 46/1A, 72/1A (P), 81/1A (P), 83 (P), 94/1A (P), 113/1, 117, 120/1, 290/1 297/4, 353/1(P), 354(P)

(4) Reserve Forest Land :-

Compartment Number 740, Block Number – 41.

All Rights :

PART – 'B'

(A) Plot numbers to be acquired in village Beheria :

(1) Tenancy Land :-

98/1- 99/1- 137/1- 138/2, 98/5- 99/4- 137/5- 138/6, 134/1, 134/2 (P), 134/3, 134/4 (P), 135/1, 135/2 (P), 135/3, 137/3, 140 (P), 147 (P).

(2) Government Land :- 136, 138/1.

(3) Government Forest Land :- 143/1 (P), 148 (P), 149/1 (P).

All Rights : PART – 'C'

(A) Plot Numbers to be acquired in village Paylee :

(1) Tenancy Land :
243/1, 243/2, 244/1, 244/2, 245 (P), 246 (P), 247 (P), 248, 249, 250, 251 (P),
252 (P), 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 (P).

All Rights : PART – 'D'

(A) Plot Numbers to be acquired in Neheriya Reserve Forest :

Neheriya Reserve Forest Compartment Number 740, Block Number 41.

Boundary Description :

All Rights : PART – 'A'

A1-A2-A3-A4 : Line starts from Point 'A1' in village Beheria and passes nearby Point 'A2' – 'A3' along the outer boundary of plot numbers 51/2, 53, 42/2 (Govt.), 44/3- 45/2, 44/1- 45/1 and meets at Point 'A4'.

A4-A5-A6-A7 : Line passes nearby Point 'A5' – 'A6' through village Beheriya along the outer boundary of plot numbers 44/4- 45/3, 44/5- 45/4, 46/1A (Forest), 27/2, 27/1, 27/3, 27/4, 281/2, 27/5- 281/3 and meets at Point 'A7'.

A7-A8-A9-
A10-A11 : Line passes nearby Point 'A8' – 'A9' - 'A10' through village Beheria along the outer boundary of plot numbers 285 (Govt.), 284, 287 (Govt.), 298/1, 291/1- 292/2, then passes through plot number 384/1 (Govt.) then passes along the outer boundary of plot numbers 379/1, 379/2, 353/1(Forest) then passes through plot number 354 (P) (Forest) and meets at Point 'A11'.

A11-A12-A13 : Line passes nearby Point 'A12' through village Beheria along with the outer boundary of plot numbers 355, 356/2- 356/3, 356/1, 340/1- 345/1 and meets at Point 'A13' on common boundary of village Beheria and Forest Compartment Number 740, Block - 41.

A13-A14-A15-A16-

A17-A18-A19-A20-

A21-A22-A23 :

Line passes nearby Point 'A14' – 'A15' – 'A16' – 'A17' – 'A18' – 'A19' – 'A20' – 'A21' – 'A22' through Forest Compartment Number 740, Block - 41 and meets at Point 'A23' on common boundary of Forest Compartment Number 740, Block - 41 and village Beheria.

A23-A24-A25-

A26-A27-A28 :

Line passes along the outer boundary of plot numbers 340/1-345/1 in village Beheria then passes nearby Point 'A24' , then passes along the outer boundary of plot number 356/1 and passes nearby Point 'A25', then passes through plot number 355 and passes nearby Point 'A26', then passes through plot number 354 (Forest) and passes nearby Point 'A27', then passes through plot number 353/1, then passes along the outer boundary of plot numbers 379/2, 379/1 and meets at Point 'A28'.

A28-A29-A30-

A31-A32 :

Line passes nearby Point 'A29' – 'A30' – 'A31' through village Beheria along the outer boundary of plot numbers 379/1, 384/1 (Govt.), 291/1- 291/2, 298/1, 287 (Govt.), 284, 285 (Govt.), 27/5- 281/3, 27/4- 281/2, 27/3, 27/1, 46/1A (Forest), 44/5- 45/4, 44/4- 45/3, 41/1- 45/1, 52/3 and meets at Point 'A32'.

A32-A33-A34 :

Line passes through village Beheria along the outer boundary of plot number 51/3, then passes through plot numbers 54 (Govt.), 72/1C- 72/1D- 81/1B- 81/1D, then passes along the outer boundary of plot number 72/1B, then again passes through plot numbers 81/1A (Forest), 73 and passes nearby Point 'A33', then passes through plot numbers 72/1A (Forest), 80- 81/2- 81/3, 81/1A (Forest), 82, 83 (Forest), 5/1, 6, 7/2, 7/1 and meets at Point 'A34'.

A34-A35-A36-

A37-A38 :

Line passes nearby Point 'A35' – 'A36' – 'A37' through village Beheria along the outer boundary of plot numbers 7/1, 7/2, 6, 1/3, 1/2, 1/4 , 2/2, 2/1, 4 (Forest), 3, then passes along the common boundary of village Beheria and Neheriya Reserve Forest Compartment Number 739 and meets at Point 'A38'.

A38-A39-A40-
A41-A42-A43-
A44-A45-A46 :

Line passes through Neheriya Reserve Forest Compartment Number 739, Block Number 41 and passes nearby Point 'A39' – 'A40' – 'A41' – 'A42' – 'A43' – 'A44', then passes through Neheriya Reserve Forest Compartment Number 738, Block Number 41 and passes nearby Point 'A45', then meets at Point 'A46' on common boundary of Neheriya Reserve Forest Compartment Number 738, Block 41 and village Sejawara Khurd.

A46-A47-A48-
A49-A50-A51-
A52-A53 :

Line passes nearby Point 'A47' – A48 – A49 – A50 – A51 – A52 through village Sejawara Khurd along the outer boundary of plot numbers 405 (Forest), 399, then passes through plot numbers 400, 394 (Forest), 421 (Forest), then passes along the outer boundary of plot numbers 421 (Forest), 394 (Forest), 437 (Forest) and meets at Point 'A53'.

A53-A54-A55-
A56-A57 :

Line passes through village Sejawara Khurd through plot numbers 437 (Forest), 410/4, 408, then passes nearby Point 'A54', then passes through plot numbers 407, 408 and crosses common boundary of village Sejawara Khurd and Neheriya Reserve Forest Compartment Number 738, Block 41, then line passes nearby Point 'A55' – 'A56' through Neheriya Reserve Forest Compartment Number 738, Block 41, Neheriya Reserve Forest Compartment Number 739, Block 41 and meets at Point 'A57' on common boundary of Neheriya Reserve Forest and village Beheria.

A57-A58-
A59-A60 :

Line passes through village Beheria through plot numbers 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, then crosses common boundary of villages Beheria and Banki, then passes nearby Point 'A58' – 'A59' through village Banki through plot numbers 53/1 (Forest), 54, 55 (Forest), 56 and meets at Point 'A60' on common boundary of villages Banki and Beheria.

A60-A61-A62-
A63-A64-A65-
A66-A67-
A68-A69 :

Line passes along the common boundary of villages Banki and Beheria, then passes nearby Point 'A61' – 'A62' – 'A63' – 'A64' – 'A65' – 'A66' – A67 – 'A68' through village Beheria outer boundary of plot numbers 120/1 (Forest), 117 (Forest), 110, 109 (Govt.) and meets at Point 'A69'.

A69-A70-A71 : Line passes through village Beheria through plot number 108/1C, 108/1B, 108/1A, 107 (Govt.), 96/1B, 96/1A, 94/1A (Forest), 95/5, then again passes through plot number 94/1A(Forest), then passes nearby Point 'A70' through plot numbers 91/2, 91/1, again passes through 94/1A (Forest), 94/2B, 89/1- 90/1, 89/2- 90/2, 89/3- 90/3, 89/4- 90/4, 72/1A (Forest), then passes along the outer boundary of plot number 72/7 and meets at Point 'A71'.

A71 – A1 : Line passes through village Beheria through plot numbers 72/1A (Forest), 73, again 72/1A (Forest), then passes along the outer boundary of plot numbers 72/1B, 72/1C- 72/1D- 81/1B- 81/1D, 54 (Govt.) and meets at starting Point 'A1'.

PART – 'B'

B1 – B2 : Line starts from Point 'B1' in village Beheria and passes through plot numbers 135/2, 134/2, 134/4, 148 (Forest) and meets at Point 'B2'.

B2-B3-B4-B5-B6 : Line passes through village Beheria through plot numbers 147, 149/1(F), then passes nearby Point 'B3' – 'B4' – 'B5' and passes through around the plot number 143/1 (Forest) and meets at Point 'B6'.

B6 – B7 - B1 : Line passes through village Beheria through plot numbers 140; then passes along the outer boundary of plot number 137/3, and passes nearby Point 'B7', then again passes outer boundary of plot numbers 98/5- 99/4- 137/5, 138/6, 136 (Govt.), then passes nearby Point 'B8' and passes along the outer boundary of plot numbers 135/1, 135/3, 135/2 and meets at starting Point 'B1'.

PART – 'C'

C1 – C2 - C3 : Line starts from Point 'C1' in village Paylee and passes nearby Point 'C2' along the outer boundary of plot numbers 258, 257, 256, 255, 254, 251, 252 and meets at Point 'C3'.

C3-C4-C5-C6 : Line passes through village Paylee along the plot number 252, then passes nearby Point 'C4' - 'C5' and passes through plot numbers 252, 251, 247, then passes along the plot number 248, then passes through plot numbers 246, 245 and meets at Point 'C6'.

C6-C7-C8-C9-C1 : Line passes through village Paylee nearby Point 'C7' along the outer boundary of plot numbers 243/2, 243/1, 244/2, then passes through plot number 261 and passes nearby Point 'C8' – 'C9', then passes along the outer boundary of plot numbers 260, 258 and meets at starting Point 'C1'.

PART – 'D'

D1-D2-D3-D4-
D5-D6-D1 :

Line starts from Point 'D1' in Neheriya Reserve Forest Compartment Number 740, Block Number 41 and passes nearby Point 'D2' – 'D3' – 'D4' – 'D5' – 'D6' through Neheriya Reserve Forest Compartment Number 740, Block 41 and meets at starting Point 'D1'.

SCHEDULE – 'E'

(PART – E)

Dhankasa Underground Mine
Pench Area
District- Chhindwara (Madhya Pradesh)

(Plan bearing number C-1(E) III/GR/857-0511, dated the 14th May, 2011)

MINING RIGHTS :

Sl. No	Name of village/ Forest	Patwari Circle number	Compartment number/ Block number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	Paylee	29	-	Parasia	Chhindwara	43.659	Part
2	Sejwara Khurd	81	-	Amar-wara	Chhindwara	0.591	Part
3	Beheria	89	-	Amar-wara	Chhindwara	9.779	Part
4	Neheriya Reserve Forest	-	736/41	-	Chhindwara	6.544	Part
5	Neheriya Reserve Forest	-	737/41	-	Chhindwara	25.120	Part
6	Neheriya Reserve Forest	-	738/41	-	Chhindwara	35.632	Part
7	Neheriya Reserve Forest	-	739/41	-	Chhindwara	84.827	Part
8	Neheriya Reserve Forest	-	740/41	-	Chhindwara	14.341	Part

Total : 220.493 hectares
(approximately)
or 544.838 acres
(approximately)

SCHEDULE – 'F'**(PART – F)**

Dhankasa Underground Mine
Pench Area
District- Chhindwara(Madhya Pradesh)

(Plan bearing number C-1(E) III/GR/857-0511, dated the 14th May, 2011)

MINING RIGHTS :

Sl. No	Name of village/ Forest	Patwari Circle number	Compartment number/ Block number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	Sejwara Khurd	81	57	Amarwara	Chhindwara	7.433	Part

Total : 7.433 hectares
 (approximately)
 or 18.367 acres
 (approximately)

SCHEDULE – 'G'**(PART – G)**

Dhankasa Underground Mine
Pench Area
District- Chhindwara (Madhya Pradesh)

(Plan bearing number C-1(E) III/GR/857-0511, dated the 14th May, 2011)

MINING RIGHTS :

Sl. No	Name of village/ Forest	Patwari Circle number	Compartment number/ Block number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	Beheria	89	-	Amarwara	Chhindwara	26.912	Part

Total : 26.912 hectares
 (approximately)
 or 66.499 acres
 (approximately)

Mining Rights :

Schedule—'E'	+	Schedule—'F'	+	Schedule—'G'	=	Total Area
220.493	+	7.433	+	26.912	=	254.838 hectares (approximately)
544.838	+	18.367	+	66.499	=	629.704 acres (approximately)

Mining Rights :**PART — 'E'****(A) Plot numbers to be acquired in village Paylee :****(1) Tenancy Land :**

167, 168(P), 169, 170, 172, 173, 174(P), 175, 177(P), 188(P), 196, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221, 222, 225, 229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/5, 231/6, 231/7, 231/8, 231/9, 231/10, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242/1, 242/2, 261(P), 262/1, 262/2, 262/3, 263, 264, 265, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4.

(2) Government Land :

171(P), 226, 227, 267.

(3) Government Forest Land :

154 (P), 195/1- 195/3(P), 216, 217, 219, 220, 223, 224, 228, 232.

(4) Reserve Forest Land (Neheriya) :

Compartment Number 736, Block Number 41 (Part), Compartment Number 737, Block Number 41 (Part), Compartment Number 738, Block Number 41 (Part), Compartment Number 739, Block Number 41 (Part), Compartment Number 740, Block Number 41 (Part).

Plot number to be acquired in village Sejjwara Khurd :**i) Government Forest Land :**

398.

Plot number to be acquired in village Beheria :**i) Tenancy Land :**

9/1, 9/2, 10.

ii) Government Land :

1/1, 8/1, 11.

Mining Rights : PART – 'F'

Plot numbers to be acquired in village Seiwara Khurd :

Tenancy Land :

411 (P), 412 (P), 413/1 (P), 413/2 (P), 413/3 (P), 414 (P).

Government Land : 421 (P).

Mining Rights : PART – 'G'

Plot numbers to be acquired in village Beheriya :

(1) Tenancy Land :

62- 63- 68/3- 237/4 (P), 64 (P), 66/1, (P) 66/2, 68/2- 237/3 (P), 68/4- 97/1D, 98/2 (P), 98/3A- 99/2A- 137/2A- 138/3A, 98/3B- 99/3B- 137/2B- 138/3B, 98/3C- 99/2C- 137/2C- 138/3C, 98/3D- 99/2D- 137/2D- 138/3D, 98/3E- 99/2E- 137/2E, 138/3E, 98/6 (P), 100/2 (P), 102/1, 102/2(P), 102/3, 102/4A (P), 102/4B, 102/4D, 102/9, 105, 110 (P), 118/1- 119/1- 120/4- 120/6, 120/2A- 122/2A- 123/1- 124/2A- 124/4A, 120/2B- 122/2B- 123/2- 124/2B- 124/4B, 120/2C- 122/2C- 123/3- 124/2C- 124/4C, 120/2D- 122/2D- 123/4- 124/4, 120/2E- 122/2E- 123/2E- 124/2E- 124/4E, 121/1, 121/2, 124/3, 125/1, 125/2(P), 125/3(P), 126/1(P), 126/2(P), 126/3(P), 139/1, 139/2, 140 (P), 141/1, 141/2, 142 (P).

(2) Government Land :

104 (P), 106 (P), 124/1.

(3) Government Forest Land :

68/1 (P), 120/5, 120/7, 122/1, 130/1, 237/1 (P).

Boundary Description :

MINING RIGHTS: PART – 'E'

E1-E2-E3-E4 : Line starts from Point 'E1' in village Beheria and passes through plot numbers 8/1 (Govt.), 11, then passes nearby Point 'E2' and passes through plot number 11, 10, 9/2, then passes nearby Point 'E3' and passes through plot number 9/1, then crosses common boundary of village Beheria and Forest Compartment Number 740. Block

Number - 41, then passes through plot number 11 (Govt.), through Neheriya Reserve Forest Compartment Number 740, Block Number - 41 and meets at Point 'E4'.

E4-E5-E6-E7-E8-

E9-E10-E11 : Line passes nearby Point 'E6' - 'E7' - 'E8' - 'E9' - 'E10' through Neheriya Reserve Forest Compartment Number 740, Block Number - 41 and meets at Point 'E11'.

E11-E12-E13 :

Line passes through Neheriya Reserve Forest Compartment Number 740, Block Number - 41, then passes through plot number 11 (Govt.), then passes through Neheriya Reserve Forest Compartment Number 739, Block - 41 and passes nearby Point 'E12' and meets on Point 'E13' on common boundary of Neheriya Reserve Forest Compartment Number 739, Block Number - 41 and village Paylee.

E13-E14-

E15-E16 : Line passes through village Paylee along the outer boundary of plot numbers 267 (Govt.), 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, then passes nearby Point 'E14' and passes along the outer boundary of plot numbers 265, 264, 262/2, then passes through plot number 261 and passes nearby Point 'E15', then passes along the outer boundary of plot numbers 242/1, 154 (Forest) and meets at Point 'E16'.

E16-E17-E18-E19-

E20-E21-E22-E23 : Line passes through village Paylee through plot number 154 (Forest), then passes along the plot number 167, again passes through plot numbers 168, then passes along the plot numbers 169, 170, then again passes through plot numbers 171 (Govt.), 177, then passes along the plot number 175, then passes through plot numbers 174, 195/1 (Forest), 188, then passes nearby Point 'E17' and again passes through plot number 195/1 (Forest), then passes nearby Point 'E18' and passes along the outer boundary of plot number 197/1, then crosses common boundary of village Paylee and Neheriya Reserve Forest Compartment Number 736, Block Number - 41, then line passes nearby Point 'E19' - 'E20' - 'E21' - 'E22', through Neheriya Reserve Forest Compartment Number 736, Block Number - 41, Neheriya Reserve Forest Compartment Number 737, Block Number - 41, Neheriya Reserve Forest Compartment Number 738, Block Number - 41 and meets at Point 'E23' at common boundary of Neheriya Reserve Forest Compartment Number 738, Block Number - 41 and village Sejwara Khurd.

E23-E24-E25-E26 : Line passes through village Sejwara Khurd and passes nearby Point 'E24' - 'E25' through plot number 398 (Forest) and meets at Point 'E26' on common boundary of village Sejwara Khurd and Neheriya Reserve Forest Compartment Number 738, Block Number - 41.

**E26-E27-E28-E29-
E30-E31-E32-E33-
E34-E35-E36-E37-
E38-E39-E40 :**

Line passes through Neheriya Reserve Forest Compartment Number 738, Block Number – 41, then passes nearby Point 'E27' - 'E28' - 'E29' - 'E30' - 'E31' - 'E32' - 'E33' - 'E34' - 'E35' - 'E36' - 'E37' - 'E38' - 'E39', through Neheriya Reserve Forest Compartment Number 738, Block Number - 41, Neheriya Reserve Forest Compartment Number 739, Block Number - 41 and meets at Point 'E40' on common boundary of Neheriya Reserve Forest Compartment Number 739, Block Number - 41 and village Beheria.

**E40-E41-E42-
E43-E44-E1 :**

Line passes nearby Point 'E41' - 'E42' - 'E43' - 'E44' through village Beheria along the outer boundary of plot numbers 1/1 (Govt.), 8/1 (Govt.) and meets at starting Point 'E1'.

PART – 'F'

**F1-F2-F3-
F4-F5-F6 :**

Line starts from Point 'F1' in village Sejwara Khurd and passes nearby Point 'F2' - 'F3' - 'F4' - 'F5' along the outer boundary of plot numbers 413/3, 411 and meets at Point 'F6'.

F6-F7-F8-F1 :

Line passes through plot number 411, then passes nearby Point 'F7', then again line passes through plot numbers 412, 421 (Forest), 414, then passes nearby Point 'F8', then line passes through plot numbers 413/2, 413/1, 413/3 and meets at starting Point 'F1'.

PART – 'G'

G1-G2-G3 :

Line starts from Point 'G1' in village Beheria and passes along the plot numbers 120/2A- 122/2A- 123/1- 124/2A- 124/4A, then passes nearby Point 'G2' and passes along the outer boundary of plot number 121/2 and meets at Point 'G3'.

G3-G4-G5 :

Line passes through village Beheria along the outer boundary of plot numbers 98/3D- 99/2D- 137/2D- 138/3D, 139/1, then passes through plot number 140 and passes neary Point 'G4', then passes along the plot number 141/1 and meets at Point 'G5'.

G5-G6-G7 :

Line passes through village Beheria along the outer boundary of plot number 142, then passes nearby Point 'G6' and passes through plot numbers 142, 237/1 (Forest), 68/1 (Forest), 68/2- 237/3, 62- 63- 68/3- 237/4, 64 , 68/1 (Forest) and meets at Point 'G7'.

- G7 – G8 : Line passes through village Beheria through plot numbers 68/1 (Forest), 66/1, then again passes through plot number 68/1 (Forest) and meets at Point 'G8'.
- G8-G9-G10-G11 : Line passes through village Beheria through plot numbers 68/4-97/1D- 98/2, 98/6, 121/2, 100/2, 102/4A, 104 (Govt.), 102/2, 105, then passes nearby Point 'G9', then passes through and along the plot number 106, then passes through plot number 110 and passes nearby point 'G10' along the outer boundary of plot numbers 110, 120/5 (Forest) and meets at Point 'G11'.
- G11-G12-G13-
G14-G15-G16 : Line passes through village Beheria nearby Point 'G12' - 'G13' - 'G14' - 'G15', around the plot numbers 118/1- 119/1- 120/4- 120/6 and meets at Point 'G16'.
- G16-G17-G18-
G19-G20-G1 : Line passes through village Beheria along the outer boundary of plot number 122/1 (Forest), then passes nearby Point 'G17' and passes along the outer boundary of plot numbers 120/2D- 122/2D- 123/4- 124/4, then passes nearby Point 'G18' and passes along the plot numbers 120/2E- 122/2E- 123/2E- 124/2E- 124/4E, 120/7 (Forest), 124/1 (Govt.), then passes nearby Point 'G19' and passes along the outer boundary of plot numbers 124/3, 124/1, then passes nearby Point 'G20' and passes through plot numbers 126/1, 126/2, 126/3, 130/1 (Forest), 125/2, 125/3 and meets at starting Point 'G1'.

[F. No. 43015/12/2010-PRIW-I]

A. K. DAS, Under Secy.